



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 18, 2003 (पौष 28, 1924)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 18, 2003 (PAUSA 28, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices
of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

सं. ए-38012/4/02-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में
अवर सचिव के रूप में कार्यरत के. स. से. के अधिकारी, श्री जगजीत
सिंह कहलौं को दिनांक 01 नवम्बर, 2002 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सिविल
सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-48 के अन्तर्गत सरकारी
सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

विजय भल्ला
अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

सं. ए-32014/1/99-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के
के. स. आ. से. संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों (वैयक्तिक
सहायक) को उनके प्रत्येक के नाम के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए
अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग

के कार्यालय में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ
आधार पर निजी सचिव (विलयित ग्रेड 'क' एवं 'ख') के रूप में कार्य
करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	तदर्थ पदोन्नति की अवधि
	सर्वश्री	
1.	अविनाश अग्रवाल	01.12.2002 से 28.02.2003
2.	नीलेश मिश्रा	-वही-
3.	के. बी. आहुजा	-वही-
4.	सुश्री पी. के. चड्ढा	-वही-
5.	देवेन्द्र कुमार	-वही-
6.	सुश्री मुक्ता मक्कड़	-वही-
7.	सुश्री कुसुम बुद्धिराजा	-वही-
8.	सी. के. परमेश्वरन	10.12.2002 से 28.02.2003
9.	वीरेन्द्र कुमार (अ. जा.)	01.12.2002 से 28.02.2003

2. उपर्युक्त व्यक्तियों की निजी सचिव के रूप में यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें के. सं. आ. से. के निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति/आमेलन अथवा वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिल जाएगा।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. ए-12011/1/98-प्रशा.-1--संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सं. लो. से. आ. (कर्मचारी वृंद) नियमावली, 1958 के विनियम 7 के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सं. लो. से. आ. के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	अवधि
	सर्वश्री	
1.	विजय कुमार शर्मा	09.12.2002 से 08.03.2003
2.	श्रीमती सरोज के. कपूर	-वही-
3.	के. के. गर्ग	-वही-

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव के रूप में यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें उक्त ग्रेड में आमेलन अथवा वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिल जाएगा।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं. ए-32013/4/2001-प्रशा.-2--अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा खान विभाग के उपनिदेशक (रा. भा.), श्री ओ. पी. सेठी को आरम्भ में दिनांक 27.12.2002 (पूर्वाह्न) से 26.12.2003 (अपराह्न) तक एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम) (सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम) के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति होने पर श्री ओ. पी. सेठी का वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.1994 के समय-समय पर यथासंशोधित का. ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)
कृते अध्यक्ष

दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. ए-38014/9/2002-प्रशा.-2--संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत श्री सोहन लाल, लेखा अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31.12.2002 (म.) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. डीपी/एडी.5/2002/8774/3/58/2002-प्रशा.V--राष्ट्रपति ने श्री एम. पी. गुप्ता, भा. पु. सेवा (ए एण्ड एम : 1995) को 02.12.2002 पूर्वाह्न से 01.12.2006 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

2. के. अ. ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के रूप में श्री एम. पी. गुप्ता की यह नियुक्ति श्री एस. के. खरे, पुलिस उपाधीक्षक, के. अ. ब्यूरो द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सीडब्ल्यूपी सं. 3755/2001 के परिणाम के अधधीन है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

सं. डीपी/एडी.5/2002/8775/3/8/99-प्रशा.V--श्री विजय कुमार, भा. पु. सेवा (पश्चिम बंगाल : 1981), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली की सेवाएं, समयपूर्व प्रत्यावर्तन पर, 04.12.2002 अपराह्न से पश्चिम बंगाल सरकार को वापस सौंप दी गई हैं।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

सं. डीपी/एडी.5/2002/8776/3/50/2002-प्रशा. V--राष्ट्रपति ने डॉ. परेश सक्सेना, भा. पु. सेवा (बिहार : 1994) को 02.12.2002 पूर्वाह्न से 01.12.2006 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

2. के. अ. ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के रूप में श्री परेश सक्सेना की यह नियुक्ति श्री एस. के. खरे, पुलिस उपाधीक्षक, के. अ. ब्यूरो द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सीडब्ल्यूपी सं. 3755/2001 के परिणाम के अधधीन है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

सं. 2/36/2000-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सहायक श्री नत्थी राम को निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 09.12.2002 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय
(राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान)

दिल्ली-110085, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. 1/5/2002-राअविबिसं/भा.पु.से.-3--राष्ट्रपति महोदय श्री शारदा प्रसाद, भा. पु. से. (असम : 1973) को दिनांक 9.12.2002 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय) में निदेशक के पद पर रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

वी. के. गुप्ता
डेस्क अधिकारी

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं. 16/3/2001-प्रशा.-II--राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निम्नलिखित कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को पदोन्नति पर केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में प्रत्येक के सामने दी गई तिथियों से स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	तैनाती का स्थान	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एस. एस. मूर्ति	केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ (प्राक्षेपिकी प्रभाग)	18.10.2002
2.	डॉ. मौ. अफज़ल	केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद (विष विभाग प्रभाग)	11.10.2002
3.	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव	केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद (एन.ए.ए. यूनिट)	20.12.2002

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, के. रि. पु. बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. ओ.-दो-2062/85-कार्मिक-1--भारत सरकार, 97 बटलियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के श्री एच. बी. गुरुंग, कमान्डेन्ट (इस्ला नम्बर-2333), जिनकी मृत्यु दिनांक 18.12.2002 को 06.45 बजे हो गई है, को खेद सहित अधिसूचित करती है। तदनुसार उन्हें दिनांक 18.12.2002 (अपराह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.-दो-3527/2000-कार्मिक-1--अधिवर्षिता आयु पर पहुंचने के फलस्वरूप, डॉ. त्रिनाथ मिश्र, भा. पु. से. (उ. प्र. : 1965) ने महानिदेशक, के. रि. पु. बल का पदभार दिनांक 31.12.2002 को अपराह्न में त्याग दिया है। तदनुसार, अधिकारी दिनांक 31.12.2002 (अपराह्न) से के. रि. पु. बल की नफरी में नहीं होंगे।

II

2. महानिदेशक, के. रि. पु. बल के रूप में वेतनमान रुपये 26,000/- में नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप, श्री एस. सी. चौबे, भा. पु. से. (उ. प्र. : 1966) ने दिनांक 31.12.2002 को अपराह्न में महानिदेशक, के. रि. पु. बल का पदभार ग्रहण कर लिया है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

सं. ई-28017/1/अधि.से.नि./2002/कार्मिक-11/2622--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एस. पी. पाण्डे, सहायक महानिरीक्षक, सरकारी सेवा से दिनांक 30.11.2002 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने के.ओ.सुब, उत्तरी क्षेत्र, साकेत नई दिल्ली का पदभार छोड़ दिया है।

बी. बी. मिश्र
महानिदेशक/के.ओ.सुब

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिक रोड, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

सं. 749/स्थापना-18-1--श्री ई. वी. खाडे, भंडार अधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड को दिनांक 30.11.2002 (अपराह्न) को अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

गंगा प्रकाश
महाप्रबंधक

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. ए-19018/1633/2002-प्रशा. (राज.)--सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री अमर सिंह, सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, लुधियाना दिनांक 30.11.2002 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. ए-19018/1647/2002-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद में अधीक्षक श्री जी. जी. ब्रह्मभट्ट को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत उक्त संस्थान में सहायक निदेशक, ग्रेड-II (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न के पद पर दिनांक 2.12.2002 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 24 दिसम्बर 2002

शुद्धि पत्र

दिनांक 18.11.2002 के अधिसूचना सं. ए-19018/1637/2002-प्रशा. (राज.) में आंशिक संशोधन के अनुसार, श्रीमती रजनी राजेन्द्रन की सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासन प्रभाग) के रूप में नियुक्ति दोपहर 4.10.2002 के बजाय सुबह 4.10.2002 से लागू होगी।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. ए-19018/757/84-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, लघु उद्योग सेवा संस्थान, श्रीनगर में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (खाद्य), श्री इन्द

जी खुशू को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 10,000-325-16,500/- के वेतनमान में शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, जम्मू में उप-निदेशक (खाद्य) बिल्कुल तदर्थ आधारित के पद पर दिनांक 10.12.2002 (पूर्वाह) से 16.8.2003 या नियमित पदधारी के कार्य ग्रहण, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/87/73-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर में उप-निदेशक (रसायन), श्री मथुरा प्रसाद को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में निदेशक (रसायन) स्थापना के पद पर दिनांक 19.12.2002 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1334/94-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, लघु उद्योग सेवा संस्थान, मुम्बई में सहायक निदेशक (ग्रेड-I), (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण), श्री सी. वी. सराफ को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, दीमापुर में उप-निदेशक (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) स्थापना के पद पर दिनांक 11.11.2002 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 2 जनवरी 2002

सं. ए-19018/413/79-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृशूर में उप-निदेशक (यांत्रिकी), श्री लाम्बर्ट जोसफ को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, मडगांव (गोवा) में निदेशक (यांत्रिकी) स्थापना आधारित के पद पर दिनांक 2.12.2002 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप-निदेशक (प्रशा.)

कोयला और खान मंत्रालय (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. 4437बी/ए-19011(1-के.सी.)/01-19ए--राष्ट्रपति जी, सुश्री कस्तूरी चक्रवर्ती को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में न्यूनतम वेतन में अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक 28.10.2002 के पूर्वाह से प्रभावी नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 2 जनवरी 2003

सं. 4बी/ए-32013/वरि. उपमहानिदेशक/99-2000/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित उपमहानिदेशक (भूविज्ञान) को वरिष्ठ उपमहानिदेशक के पद पर इसी विभाग में तथा रु. 22,400-525-24,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर आगामी आदेश तक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण तिथि
01.	श्री ए. वी. दत्त	वरिष्ठ उप-महानिदेशक	12.12.2002 (पूर्वाह)
02.	डॉ. चिन्मय चक्रवर्ती	वरिष्ठ उप-महानिदेशक	12.12.2002 (पूर्वाह)

के. पी. गौतम
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2003

सं. 10/7/99-स्मा--प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम 5, 1959 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं कस्तूरी गुप्ता मेनन, महानिदेशक यह आदेश देती हूँ कि साम्बा दशमी और माघ सप्तमी के अवसर पर कोणार्क स्थित सूर्या मन्दिर में 13 जनवरी व 8 फरवरी को पर्यटकों से प्रवेश-शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कस्तूरी गुप्ता मेनन
महानिदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 2 जनवरी 2003

सं. 7-5/2002-प्रशा.प्रथम--भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार ने श्री मणिमय चट्टोपाध्याय को 13.12.2002 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियमित रूप से अस्थायी आधार पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में इस निदेशालय में वनस्पति संरक्षण अधिकारी (कीट विज्ञान) के पद पर नियुक्त किया है।

पी. एस. चंद्रकर
वनस्पति संरक्षण सलाहकार

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 24 जनवरी 2002

सं. ए-31014/1/99-प्र-1--कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार ने निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में विपणन अधिकारी (गुप-III) के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया है :-

1. श्रीमती जी. बी. मयूर 14.12.2000

2. श्री शिवनन्दन 15.07.2000

डी. के. बजाज
निदेशक, प्रशासन

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. 6(2285)/99 प्रशा./03--राष्ट्रपति, श्री सी. के. रामचन्द्रन, अवर सचिव (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-), परमाणु ऊर्जा विभाग मुम्बई, को दिनांक 02.12.2002 पूर्वाह्न से 18 दिनों तक की अवधि के लिए कार्यकाल का विस्तार करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
स्टाफ संपर्क अधिकारी

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. केट/स्था./127/784--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, इस विभाग के प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में कार्यरत श्री एस. एस. मरहास, वैज्ञानिक अधिकारी/ई (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) दिनांक 31.12.2002 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अ. पट्टाबिरामन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं. क्रभनि/41/1/98-प्रशा./4886--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुम्बई के क्रय सहायक, श्री एम. के. पवार को इसी निदेशालय में दिनांक 23.09.2002 (पूर्वाह्न) से 05.12.2002 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

आर. सुंदरराजन
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. क्रभनि/2/1(19)/88-प्रशा./4887--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने मद्रास क्षेत्रीय क्रय एकक, चेन्नई के क्रय सहायक श्री आर. गुरुमूर्ति को केन्द्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुम्बई में दिनांक 09.12.2002 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

आर. सुंदरराजन
प्रशासनिक अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं. भापाबो/भ/1/2(45)/2002/1035--राष्ट्रपति, नीचे कालम सं. 4 के श्री टी. बी. राधाकृष्णन, जिनकी नियुक्ति दिनांक 12.08.2002

(पूर्वाह) से है, को छोड़कर भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा/तूतीकोरीन/मणुगूरू) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं ग्रेड "ई" को दिनांक 1 अगस्त, 2002 से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता "एफ" के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :--

उपरोक्त अधिकारियों में से क्र. सं. 4 के श्री टी. वी. राधाकृष्णन ने दिनांक 12 अगस्त, 2002 को पूर्वाह से प्रभावी रूप में तथा अन्य अधिकारियों ने दिनांक 1 अगस्त, 2002 के पूर्वाह से प्रभावी रूप में अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सी. जी. सुकुमारन
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

क्र. सं.	नाम	संयंत्र
	सर्वश्री/श्री	
1.	सुरेश जनार्दन पाटिल	भापाबो (केन्द्रीय कार्यालय)
2.	भालचन्द्र शामराव गलफाडे	भापासं (बड़ौदा)
3.	नन्दकुमार लक्ष्मण मलईकर	भापासं (बड़ौदा)
4.	त्रिव्कालुर वैराठ राधाकृष्णन	भापासं (बड़ौदा)
5.	थिरुवेन्कटाचारी श्रीनिवासन	भापासं (तूतीकोरीन)
6.	मल्लायन बालसुब्रमणियन	भापासं (तूतीकोरीन)
7.	नेल्लायप्पन रामास्वामी	भापासं (तूतीकोरीन)
8.	नारायणस्वामी श्रीनिवासन	भापासं (तूतीकोरीन)
9.	अन्केम वेन्कटा रामणा नागा भूषण मणिक्याला राव	भापासं (मणुगूरू)
10.	वदालि वेन्कटासाई अन्जेनेया प्रसाद	भापासं (मणुगूरू)
11.	तपन कुमार घोष	भापासं (मणुगूरू)
12.	इनापाकोल्लु हरि प्रसाद	भापासं (मणुगूरू)

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2002/225--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के वैज्ञानिक अधिकारी/ई, श्री डी. वी. एस. रघुराम को वैज्ञानिक अधिकारी/एफ के ग्रेड में (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) दिनांक 01.08.2002 से इसी इकाई में आगामी आदेशों पर्यंत स्थानापन्न हैसियत में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी. वाई. प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 6 जनवरी 2003

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2002/05--मुख्य कार्यपालक, एनएफसी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के श्री पी. गुरुनाथ प्रसाद, वैज्ञानिक सहायक/सी, को रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 01.08.2002 से इसी इकाई में आगामी आदेशों पर्यंत वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी के ग्रेड में स्थानापन्न हैसियत में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी. वाई. प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 4 जनवरी 2003

सं. ए.एम.डी.-4/2/2002-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में कार्यरत निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को उनके नाम के सामने लिखित तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान पर वैज्ञानिक अधिकारी/एफ के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
1.	जी. मिश्रा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
2.	डॉ. बी. के. बालाजी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01.08.2002
3.	जी. वी. जी. शर्मा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01.08.2002

1	2	3	4	5	6
4.	के. श्रीनिवास	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
5.	सुरेश कुमार	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
6.	जी. आर. गंगाधरन	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
7.	के. जगन्नाथ राव	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
8.	एन. एस. खान	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01.08.2002
9.	पी. के. शर्मा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
10.	एम. के. वर्मा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01.08.2002
11.	पी. के. जैन	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
12.	कमलेश कुमार	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
13.	के. विश्वमोहन	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.08.2002
14.	डॉ. टी. एस. सुनील कुमार	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-एस.सी.	01.08.2002
15.	प्रकाश चंद पंत	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
16.	आर. पी. सिंह	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2002
17.	के. आनंद राव	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	वैज्ञा. अधि.-एस.सी.	01.08.2002

के. दामोदरन
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय
(केन्द्रीय जल आयोग)

नई दिल्ली-66, दिनांक 26 नवम्बर 2002

सं. ए-19012/63/98-स्था. पांच--अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, खेद व्यक्त करते हुए दिनांक 10.11.2002 को श्री प्रवीर घोष, अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के निधन की घोषणा करते हैं।

जे. एस. एस. शास्त्री
अवर सचिव (स्था.-एक)

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. 3-1410/2002-स्था.ई.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एच. डब्ल्यू. नंदेदकर को दिनांक 2.12.2002 (पूर्वाह) में

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में सहायक अभियन्ता के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

एम. मेहता
क्षेत्रीय निर्देशक और निर्देशक (प्रशासनिक)

दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. 3-1403/2002-स्था.ई.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री बी. आर. धईया को दिनांक 19.09.2002 (पूर्वाह) में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में सहायक अभियन्ता के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) रुपये 7,500-250-12,000/- में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

एम. मेहता
क्षेत्रीय निर्देशक और निर्देशक (प्रशासनिक)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
मुख्य वास्तुक-(एन.डी.आर.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. 27/2/90-मु.वा.-1--श्री आई. डी. रस्तोगी, अतिरिक्त निर्माण महानिदेशक (वास्तुकीय) के.लो.नि.वि. नई दिल्ली को वार्धक्य की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2002 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

वी. के. तिवारी
मुख्य वास्तुक (NDR) के सम्पर्क अधिकारी

सं. 27/19/90-मु.वा.-1--श्री एम. एस. गोस्वामी, वास्तुक, के.लो. नि.वि. नई दिल्ली को वार्धक्य की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2002 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

वी. के. तिवारी
मुख्य वास्तुक (NDR) के सम्पर्क अधिकारी

(कार्यालय मुख्य वास्तुक-II)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. 27/60/91/मु.वा.(उ.क्षे.)/स्था./2725-37--इस विभाग की श्रीमती गुरमित कौर, तकनीकी अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2002 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त होती हैं।

सुभाष मोहन माथुर
वास्तुक एवं सम्पर्क अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रेवाल लीजिंग एण्ड फाईनैन्सिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. 5687/560(5)/1241--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रेवाल लीजिंग एण्ड फाईनैन्सिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पायोनियर एअर-टैक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560(5)/1239--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पायोनियर एअर-टैक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्यास ट्रांसपोर्ट को. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/20547/10779--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्यास ट्रांसपोर्ट को. प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रामीण एजुकेशनल डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/21223/10774--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रामीण एजुकेशनल डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हैवन इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. 21382/560(5)/1240--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स हैवन इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. एम. सोफ्ट इक्सपो लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/21479/10791--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए. एम. सोफ्ट इक्सपो लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हलीना प्रोसेसर्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/23313/10783--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हलीना प्रोसेसर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूर्या हाईवेज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/24063/10787--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सूर्या हाईवेज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वृति फाइनेन्सियल एण्ड एलाइड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स वृति फाइनेन्सियल एण्ड एलाइड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स चुनमुन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स चुनमुन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स बालाजी सुपर बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स बालाजी सुपर बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स बंसल फिल्म एण्ड स्टुडियोज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस./9534--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स बंसल फिल्म एण्ड स्टुडियोज प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ओम शिवा आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस./16438--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स ओम शिवा आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स भरतपुरिया केपिटलाइन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस./9620--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स भरतपुरिया केपिटलाइन प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एचआरबी केपिटल सर्विसेज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस./9473--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स एचआरबी केपिटल सर्विसेज लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मोहित सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस./10618--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स मोहित सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विक्रम कान्ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स विक्रम कान्ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ओएसिस क्वालिटी सिस्टम कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं. आर.ओ.सी./560/एफ.टी.एस./16113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स ओएसिस क्वालिटी सिस्टम कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किए गए तो उक्त कम्पनी का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स प्रीमियर डेयरी एण्ड फूड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं. आर. ओ. सी.-जी/11591/धारा 560 (3)/3628--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स प्रीमियर डेयरी एण्ड फूड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स नार्थ ईस्टर्न भीनर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 2 जनवरी 2003

सं. टी.ए./आर.ओ.सी./2085/560 (3)/5896--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के अवसान पर मैसर्स नार्थ ईस्टर्न भीनर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

दे. बन्दोपाध्याय
कम्पनी का रजिस्ट्रार
मणीपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरुणाचल एवं मिज़ोरम

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 31st October 2002

No. A-38012/1/02-Admn. I—The President is pleased to permit Shri Jagjit Singh Kalken, an officer of CSSS, working as Under Secretary in UPSC to retire voluntarily from Government Service under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972 with effect from the forenoon of 01st November 2002.

VIJAY BHALLA
Under Secy. (Admn.)

New Delhi, the 11th December 2002

No. A-32014/1/99-Admn. I—The President is pleased to appoint the following Grade 'C' Stenographers (Personal Assistant) of CSSS cadre of UPSC as Private Secretary (Grade 'A & B' merged) on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the office of UPSC for a period as shown against their names or till further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name (S/Shri)	Period
1.	Avinash Aggarwal	1-12-2002 to 28-2-03
2.	Neelesh Mishra	-do-
3.	K. B. Ahuja	-do-
4.	Ms. P.K. Chadha	-do-
5.	Devender Kumar	-do-
6.	Ms. Mukta Makar	-do-
7.	Ms. Kusum Budhiraja	-do-
8.	C. K. Pranaswaran	10-12-2002 to 28-2-03
9.	Virender Kumar (SC)	1-12-2002 to 28-2-03

2. The appointment of above mentioned persons as Private Secretary is purely on ad-hoc basis and will not confer on them any title for regular appointment/absorption or seniority in the grade of Private Secretary of CSSS.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

The 23rd December 2002

No. A-12011/1/98-Admn. I—Chairman, UPSC is pleased to appoint the following regular Private Secretaries of the CSSS cadre of UPSC as Principal Private Secretary purely on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in the office of UPSC for the period shown against each or till regular officers become available, whichever is earlier in

exercise of powers vested in him vide regulation 7 of the UPSC (Staff) Regulation, 1958 :—

Name (S/Shri)	Period
(i) Vijay Kumar Sharma	9-12-2002 to 8-3-03
(ii) Smt. Saroj K. Kapoor	-do-
(iii) K. K. Garg	-do-

2. The appointment of above mentioned officers as PPS is purely on ad-hoc basis and will not confer on them any title for absorption or for seniority in the said grade.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

New Delhi, the 27th December 2002

No. A-32013/4/2001-Admn. II—The Chairman Union Public Service Commission hereby appoints Shri O. P. Sethi, Deputy Director (Official Language) in the Department of Mines to the post of Senior Research Officer (Language Medium) (General Central Service; Group 'A' Gazetted, Non-ministerial) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the Commissions/office on deputation basis initially for a period of one year w.e.f. 27-12-2002 (F.N.) to 26-12-2003 (A.N.), or until further orders, whichever is earlier.

2. On his appointment as Senior Research Officer (Language Medium) on deputation basis, the pay of Shri O. P. Sethi will be regulated in accordance with the provisions contained in the Department of Personnel & Training O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay. II) dated 15-01-1994 as amended from time to time.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)
for Chairman

Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 31st December 2002

No. A-38014/9/2002-Admn. II—Consequent upon his attaining the age of superannuation Mr. Shan Lal, Accounts Officer in the office of the Union Public Service Commission, has retired from Government service with effect from 31-12-2002 (A. N.).

M. NIRMALA RAO
Under Secy (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 31st December 2002

No. DPAD 52002/8774/3/58/2002-AD.V—The President is pleased to appoint Shri M. P. Gupta, IPS (A&M : 1995), as Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 02-12-2002 for a period of 4 years upto 01-12-2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri M. P. Gupta as SP, CBI is subject to outcome of the CWP No. 3755/2001 filed by Shri S. K. Khare, DSP, CBI in the High Court of Delhi.

S. D. BAIJAL,
Administrative Officer (Estt.)
CBI

No. DPAD52001/8775/3/8/99-AD.V—Services of Shri Vijay Kumar, IPS (WB : 1981), Dy. Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation, New Delhi have been placed back at the disposal of Government of West Bengal with effect from the afternoon of 4-12-2002 on premature repatriation,

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

No. DPAD52002/8776/3/50/2002-AD.V—The President is pleased to appoint Dr. Paresh Saxena, IPS (BH : 1994), as Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 2-12-2002 for a period of 4 years up to 1-12-2006 or until further orders, whichever is earlier.

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 3rd January 2003

No. 16/3/2001-Admn.-II—The President is pleased to appoint the following Junior Scientific Officers, Central Forensic Science Laboratories as Senior Scientific Officer Grade-II, Central Forensic Science Laboratories on promotion in an officiating capacity with effect from date indicated against each in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- :-

Sl. No.	Name	Place of Posting	Date of promotion
1.	Shri S. S. Murthy	CFSL, Chandigarh (Ballistics Division)	18-10-2002
2.	Dr. Mohd. Afzal	CFSL, Hyderabad (Toxicology Division)	11-10-2002
3.	Smt. Seema Srivastava	CFSL, Hyderabad (NAA Unit)	20-12-2002

A. K. SOOD
Asstt. Director (Adm.)

2. The appointment of Dr. Paresh Saxena as SP, CBI is subject to outcome of the CWP No. 3755/2001 filed by Shri S. K. Khare, DSP, CBI in the High Court of Delhi.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)
CBI

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 30th December 2002

No. 2/36/2000-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Nathi Ram, Personal Assistant in the Commission as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 65,00-200-10,500/- purely on ad-hoc basis for a period of three months w.e.f. 9-12-2002 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

2. His appointment to the post of Private Secretary is purely temporary and ad-hoc basis under Rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

MANGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NATIONAL INSTITUTE OF CRIMINOLOGY
AND FORENSIC SCIENCE**

Delhi-110085, the 20th December 2002

No. 1/5/2002-NICFS/IPS-III—The President is pleased to appoint Shri Sharda Prasad, IPS (AM-73) as Director, National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs), in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400 on deputation basis for a period of 5 years with effect from 9th December 2002 (F/N).

V. K. GUPTA
Desk Officer

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 31st December 2002

No. O-II-2062/85-Pers.I—The Govt. of India regret to notify the death of Shri H. B. Gurung, Commandant (IRLA No. 2333) of 97 Bn, CRPF on 18-12-2002 at 0645 hours. He is accordingly struck off the strength of this organisation from 18-12-2002 (A/N).

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers-I)

No. O. II. 3527/2000. Pers. I—Consequent on attaining the age of superannuation, Dr. Trinath Mishra, IPS (UP : 65) has relinquished the charge of the post of Director General, CRPF in the afternoon of 31-12-2002. Accordingly, the officer is no longer on the strength of CRPF w.e.f. 31-12-2002 (AN).

II

Consequent on appointment as DG, CRPF in the pay scale of Rs. 26000/-, Shri S. C. Chaube, IPS (UP : 66) has taken over the charge of Director General, CRPF in the afternoon of 31-12-2002.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers.I)

**DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi-110003, the 5th December 2002

No. E-28017/1/2001/Noti. Retd./Pers. II/2662—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri S. P. Pandey, relinquished the charge of the post of A.I.G./NZ, C.I.S.F. New Delhi in the afternoon of 30-11-2002.

B. B. MISHRA, IPS
Director General (C.I.S.F.)

**MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY
AFFAIRS**

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

INDIA SECURITY PRESS

Nashik, the 4th December 2002

No. 749/EST-18-1—Shri E. V. Kalia, Store Officer, India Security Press, Nashik Road has been retired on 30-11-2002 (After Noon) on attaining the age of Superannuation, from Government Service.

GANGA PARKASH
General Manager

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES**OFFICE OF THE DEVELOPMENT
COMMISSIONER**

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 20th December 2002

No. A-19018/1633/2002/Admn (G)—On attaining the age of superannuation, Shri Amar Singh, Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division), Small Industries Service Institute, Ludhiana under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 30-11-2002.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

The 23rd December 2002

No. A-19018/1647/2002-Admn.(G)—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri G.G. Brahmabhatt, Superintendent, Small Industries Service Institute, Ahmedabad as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) officiating under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the same Institute with effect from the afternoon of 2-12-2002 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

The 24th December 2002

CORRIGENDA

In partial Modification of Notification No. A-19018/1637/2002-Admn. (G) dated 18-11-2002, the appointment of Smt. Rajini Rajendran as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) is with effect from the forenoon of 4-10-2002 instead of afternoon of 4-10-2002.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

The 31st December 2002

No. A-19018/757/34-Admn. (G)—The President is pleased to appoint Sari I. J. Khushu, Asstt. Director (Grade I) (Food), Small Industries Service Institute, Srinagar (J & K) as Deputy Director (Food) on purely ad-hoc basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in Branch Small

Industries Service Institute, Jammu with effect from the forenoon of 10-12-2002 to 16-8-2003 or the regular incumbent joins, whichever is earlier.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

No. A-19018/87/73-Admn. (G)—The President is pleased to appoint Sri Mathura Prasad, Deputy Director (Chemical), Small Industries Service Institute, Kanpur as Director (Chemical) officiating under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi with effect from the forenoon of 19-12-2002 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

No. A-19018/13/34/94-Admn(G)—The President is pleased to appoint Shri C. V. Sraf, Assistant Director (Grade I) (Industrial Mechanical and Training), Small Industries Service Institute, Mumbai as Deputy Director (Industrial Management and Training) officiating under Small Industry Development Organisation in the pay Scale of Rs. 10000-325-15200 in Branch small Industries Service Institute, Dimapur with effect from the forenoon of 11-11-2002 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

New Delhi, the 2nd January 2003

No. A-19018/413/79-Admn(G)—The President is pleased to appoint Sri Lambert Joseph, Deputy Director, (Mechanical), Small Industries Service Institute, Trichur as Director (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in small Industries Service Institute, Margao (Goa) with effect from the forenoon of 2-12-2002 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

KOYLA AUR KHAN MANTRALAYA (GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 31st December 2002

No. 4347 B/A-19011(1-KC)/01/19A—The President is pleased to appoint Miss Kasturi Chakraborty to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 28-10-2002, until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General, GSI.

Kolkata-700016, the 2nd January 2003

No. 4B/A-32013/Sr. DDG/99-2000/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the President is pleased to appoint the following Dy. Directors General (Geology), Geological Survey of India, on promotion to the post of Sr. Dy. Director General, in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- w.e.f. the date as mentioned against each until further orders.

Name of the officer	Designation	Date of assumption of charge
Shri A.B. Dutt.	Sr. DDG	12-12-2002 (F. N.)
Dr. Chhamoy Chakrabarti	Sr. DDG	12-12-2002 (F. N.)

K. P. GAUTAM
Director (Personnel)
For Director General
Geological Survey of India.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-110003, the 2nd January 2003

F. No. 10/7/99-M—In exercise of the powers conferred under Rule, 5 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, Kasturi Gupta Menon, Director

General, Archaeological Survey of India hereby direct that no entry fee shall be charged at the Sun temple, Konark from the visitors on the occasion of Samba Dusami and Magha Suptami which fall on 13th January and 8th February, 2003 respectively.

KASTURI GUPTA MENON
Director General

**MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)**

**DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION,
QUARANTINE & STORAGE**

Faridabad, the 2nd January 2003

No. 7-5/2002-Adm. I—The Plant Protection Advisor to the Government of India has appointed Shri Manimoy Chattopadhyay to the post of Plant Protection Officer (Entomology) in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/ w.e.f. the forenoon of 13-12-2002 on regular/temporary basis in the Directorate until further orders.

P. S. CHANDURKAR
Plant Protection Adviser

**DIRECTORATE OF MARKETING AND
INSPECTION**

Faridabad, the 24th December, 2002

No. A-31014/1/99-A, I—The Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India has appointed the following Officers substantively to the post of Marketing Officer (Gr. III) in the Directorate of Marketing & Inspection w.e.f. the dates indicated against each :—

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Smt. G. B. Meur | 14-12-2000 |
| 2. Shri Shiv Nandan | 15-7-2002 |

D. K. BAZZAZ
Director (Admn.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 1st January 2003

No. 6(2285)/99/Adm/03—The President is pleased to extend the tenure of Shri C. K. Ramchandran Under Secretary (Scale of pay Rs. 10,000-325-15,200) Department of Atomic Energy, Mumbai, for a period of 18 days from the forenoon of 2 December 2002.

M. VENUGOPALAN
Staff Relations Officer

CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 1st January 2003

No. CAT/Estt./127/784—On attaining the age of superannuation, Shri S. S. Marhas, Scientific Officer/E (Scale of pay Rs. 12000-375-16500), Centre for Advanced Technology, Indore of this Department has retired from Government service with effect from the afternoon of 31-12-2002.

A. PATTABIRAMAN
Chief Admin. Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORAGE

Mumbai-400094, the 26th December 2002

No. DPS/11/1/98-Adm./4886—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri M. K. Pawar, Sr. Purchase Assistant, CPU, DPS, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis in the same Directorate w.e.f. 23-09-2002 (FN) to 05-12-2002 (AN).

R. SUNDARARAJAN
Administrative Officer-III

No. DPS/2/1(19)88-Adm./4887—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri R. Gurumurthy, Purchase Assistant, MRPU, DPS, Chennai as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on regular basis in temporary capacity in CPU, DPS, Mumbai w.e.f. 09-12-2002 (FN) until further orders.

R. SUNDARARAJAN
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 27th December 2002

No. HWB/R/1/2(15)/2002/1035—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'E' of Heavy Water Board (Central Office)/Heavy Water Plant (Baroda/Tuticorin/Manuguru) as Scientific Officer/Engineer Grade 'F' in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 with effect from the forenoon of August 1st, 2002 except Shri T. V. Radhakrishnan at Sl. No. 4 whose date of appointment is with effect from 12-8-2002(FN) in the same Office/Plant in a temporary capacity until further orders :—

Sr. No.	Name & Designation	Plant
1	2	3
	Shri/Smt./Dr.	
1.	Suresh Janardan Patil	HWB(Central Office)
2.	Bhalchandra Shamrao Galphade.	HWP(Baroda)
3.	Nandkumar Laxman Malaikar.	-do-
4.	Trikkalur Variath Radhakrishnan.	-do-
5.	Thiruvankata Chary Srinivasan.	HWP(Tuticorin)
6.	Mallaian Balasubramanian.	-do-
7.	Nellayappan Ramaswamy.	-do-
8.	Narayanaswamy Srinivasan.	-do-
9.	Ankem Venkata Ramana Naga Bhushana Manikyala Rao	HWP(Manuguru)
10.	Vadali Venkata Sai Anjaneya Prasad.	-do-
11.	Japan Kumar Ghosh.	-do-
12.	Inapakollu Hari Prasad.	-do-

The above Officers relinquished charge of the lower post held by them on the forenoon of August 1st, 2002 except Shri T. V. Radhakrishnan at Sl. No. 4 whose date of relinquishment with effect from the forenoon of August 12, 2002.

C. G. SUKUMARAN
Director (Personnel & Administration)

NUCLEAR FUEL COMPLEX

The 6th January 2003

Hyderabad-500032, the 16th December 2002

No. NFC/PA.R. II/3-2002/225—The President is pleased to appoint Shri D.V.S. Raghuram, Scientific Officer 'E' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grade of Scientific Officer 'F' in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 with effect from 1-8-2002 in the same Unit, in an officiating capacity, until further orders.

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

No. NFC/PA.R. II/3-2002/05—Chief Executive, NFC appoints Shri P. Gurunadha Prasad, Scientific Assistant 'C' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grade of Scientific Officer/SB in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500 w.e.f. 1-8-2002 in the same Unit, in an officiating capacity, until further orders.

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500016, the 4th January 2002

No. AMD-4/2/2002-Rectt./43—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research Hyderabad of the Department of Atomic Energy, Mumbai to the grade of Scientific Officer-F carrying the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 in the same Directorate in an officiating capacity on the date shown against each until further orders :—

Name of the officer	Present Grade	Promoted to Grade	Substantive Post held	Date of assumption of Charge
(S/Shri)				
G. Mishra	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Dr. B.K. Balaji	SO-E	SO-F	GRP-B(SCIENT)	01-08-2002
G.V.G. Sharma	SO-E	SO-F	GRP-B(SCIENT)	01-08-2002
K. Srinivas	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Suresh Kumar	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-03-2002
G. R. Gangadharan	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
K. Jagannadha Rao	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-03-2002
N. S. Khan	SO-E	SO-F	GRP-B(SCIENT)	01-08-2002
P. K. Sharma	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-03-2002
M. K. Verma	SO-E	SO-F	GRP-B(SCIENT)	01-08-2002
P. K. Jain	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
Kamlesh Kumar	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-03-2002
K. Viswamohan	SO-E	SO-F	GRP-B(TECH)	01-08-2002
Dr. T.S. Sunil Kumar	SO-E	SO-F	SO-SC	01-08-2002
Prakash Chand Pant	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-08-2002
R. P. Singh	SO-E	SO-F	GRP-A(SCIENT)	01-03-2002
K. Ananda Rao	SO-E	SO-F	SO-SC	01-03-2002

K. DAMODARAN
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(CENTRAL WATER COMMISSION)

New Delhi-66, the 26th November 2002

No. A-19012/63/98-EST. V.—The Chairman, Central Water Commission regrets to announce the death of Shri Prabir Ghosh Extra Assistant Director, CWC, New Delhi on 10-11-2002.

J. S. S. SASTRY
Under Secy. (E-I)

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Hyderabad, the 31st December 2002

No. 3-1410/2002-EST. 10204—On the recommendation of the DPJ S. H. W. Nandekar is promoted to the post of Assistant Engineer GCS (Gr. B) (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7 00-250-12000/- in Central Ground Water Board on temporary basis w.e.f. 2-12-2002 (F. N.)

M. MEHTA
Regional Director & Director (Admn)

The 1st January 2003

No. 3-103/2002-Egg.Est.—On the recommendation of the DPC Sh. V.R. Dahiya is promoted to the post of Assistant Engineer CCS (Gr. B) (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- in Central Ground Water Board on temporary basis w.e.f. 19-9-2002(F.N.)

M. Mehta, Regional Director &
Director(Admn.)

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

DIRECTORATE GENERAL OF WORKS

O/o CHIEF ARCHITECT(NDR) UNIT

New Delhi, the 31st December 2002

No. 27/2/90-C.A.I./2335-42—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri I. D. Rustogi, ADG(Architecture) Central Public Works Department, New Delhi retires from Government service with effect from the afternoon of 31-12-2002(AN).

V. K. TIWARI
Liaison Officer to Chief Architect(NDR)

No. 27/10/90-C.A.I./2352-60 Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri M. S. Goswami, Architect Central Public Works Department, New Delhi retires from Government service with effect from the afternoon of 31-12-2002(AN)

V. K. TIWARI
Liaison Officer to Chief Architect(NDR)

OFFICE OF THE CHIEF ARCHITECT-II

New Delhi-110011, the 31st December 2002

No. 27/60/91/ CA (NR) /Estt./ 2725-37—Smt. Gurmeet Kaur, Technical Officer of this office retires from Government service on attaining the age of superannuation with effect from 31-12-2002 (AN).

S. M. MATHUR
Arch./Liaison Officer to CA(NR)

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Grewal Leasing and Engineering Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 1st January 2003

No. ROC/560 (5)/5687/1241—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Grewal Leasing and Engineering Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pioneer Air-Tech Engineers Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 1st January 2003

No. ROC/560 (5)/20154/1239—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pioneer Air-Tech Engineers Pvt. Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Beas Transport Co. Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 1st January 2003

No. ROC/560(3)/20547/10779—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Beas Transport Co. Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gramin Educational Development Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 1st January 2003

No. ROC/560 (3)/21223/10.74—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gramin Educational Development Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Heaven International (P) Ltd.

Jalandhar, the 1st January 2003

No. ROC/560 (5)/21382/1240—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Heaven International (P) Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A M Softexpo Ltd.

Jalandhar, the 1st January 2003

No. ROC/560 (3)/21479/10791—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A M Softexpo Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Haleena Processors Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 1st January 2003

No. ROC/560 (3)/23313/10783—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Haleena Processors Pvt. Ltd. unless cause

is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surya Highways Pvt. Ltd.

Jalandhar the 1st January 2003

No. ROC/560(3)/24063/10787—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Surya Highways Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vriti Financial and Allied Consultants
Pvt. Ltd

Jaipur, the 24th December 2002

No. ROC/JPR/FTS/560/13200/3184—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Vriti Financial and Allied Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chunmun Builders Pvt. Ltd.

Jaipur, the 24th December 2002

No. ROC/JPR/FTS/560/13992/3171—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Chunmun Builders Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Balaji Super Buildwell Pvt. Ltd.

Jaipur, the 24th December 2002

No. ROC/JP/FF/355/11103/3177—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Balaji Super Buildwell Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bansal Films and Studios Pvt. Ltd.

Jaipur, the 26th December 2002

No. ROC/560/9534/3242—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bansal Films and Studios Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Shiva Arts Pvt. Limited

Jaipur, the 27th December 2002

No. ROC/560/16438/3252—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Om Shiva Arts Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharatpuriya Capitaline Pvt. Ltd.

Jaipur, the 30th December 2002

No. ROC/560/9520/3266—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bharatpuriya Capitaline Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. HRB Capital Services Ltd.

Jaipur, the 31st December 2002

No. ROC/560/9473/3283—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. HRB Capital Services Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohit Cements Pvt. Ltd.

Jaipur, the 31st December 2002

No. ROC/560/10618/3279—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mohit Cements Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikram Contractors Pvt. Ltd.

Jaipur, the 31st December 2002

No. ROC/JPR/FTS/560/13889/3288—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Vikram Contractors Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Oasis Quality System Consultants Pvt. Ltd.

Jaipur, the 31st December 2002

No. ROC/560/16113/3274—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Oasis Quality System Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Premier Dairy and Food Consultants Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 3rd January 2003

No. ROC-G/1159/Sec./560(3)3628—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Premier Dairy and Food Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. North Eastern Veneer products Pvt. Ltd.

Shillong-793001, the 2nd January 2003

No. TA/ROC/2085/560(3)/5896—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. North Eastern Veneer Products Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

D. BANDOPADHYAY
Registrar of Companies
Manipur, Tripura, Nagaland, Arunachal
Pradesh & Mizoram

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मूद्रित
एवं प्रकाशन निबन्धक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003